



दिल्ली पब्लिक स्कूल, गांधीनगर  
शैक्षिक सत्र 2018-19

विषय: हिंदी सप्ताह	दिनांक: 10.09.2018-14.09.2018
स्थान: कक्षा	कक्षा: 1 to 5

**जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का  
वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का ॥**

भारत देश के आज़ाद होने के बाद १४ सितम्बर १९४९ को राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को सम्मान दिया गया। तब से प्रतिवर्ष १४ सितम्बर को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालयों, व सरकारी कार्यालयों में हिंदी सप्ताह मनाया जाता है।

**हिंदी सप्ताह मनाने का उद्देश्य -**

- विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का महत्त्व समझाना।
- भारत की भाषा हिंदी के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना।
- भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराना।

**हिंदी सप्ताह**

विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि व सम्मान की भावना को जागृत करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, गांधीनगर में भी हिंदी सप्ताह मनाया गया। भारत का भविष्य बनाने वाले नन्हे-नन्हे फूलों को हिंदी भाषा का महत्त्व समझाने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। विद्यालय के प्राथमिक विभाग के कक्षा १ से ५ तक के सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से सभी गतिविधियों में भाग लिया। कक्षा १ में पोस्टर बनाना गतिविधि द्वारा "हिंदी राष्ट्र भाषा है" की जानकारी दी गई। कक्षा २ में शब्द रचना गतिविधि द्वारा शब्दों को बनाने के तरीके से अवगत करवाया गया। कक्षा ३ में पहली बूझो गतिविधि द्वारा हिंदी भाषा का ज्ञान सीखने की मानसिकता का विकास किया गया। कक्षा ४ में सुविचार तथा कक्षा ५ में कबीर के दोहों आधारित गतिविधि आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने जाना कि देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं पर हिंदी का अपना महत्त्व है। १४ सितम्बर के दिन कक्षा ३ के विद्यार्थी ने प्रार्थना सभा में "हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है?" पर प्रकाश डाला। मुख्याध्यापक ने भी हिंदी भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला और हिंदी भाषा को भारत की पहचान बताया।

**भारत देश है मेरी शान  
इसकी हिंदी भाषा है महान।**

